

(12) ट्रेड-रेडियो एवं रगीन टेलीविजन

कक्षा-12

उद्देश्य—रेडियो एवं टेलीविजन आधुनिक युग में मनोरंजन का सशक्त माध्यम तो है ही साथ ही विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक अद्यतन सूचना तथा समाचार प्रसारित करने का भी सबल माध्यम है। आज यह विलासिता की वस्तु न रहकर ज्ञान संवर्धन के लिए आवश्यक आवश्यकता बनती जा रही है। इनकी मांग तथा सेवा का प्रसार तीव्रता से हो रहा है। अतः कुछ छात्रों को इस ट्रेड में शिक्षण देना लाभकारी सिद्ध हो सकेगा।

रोजगार के अवसर-

- 1—रेडियो तथा टेलीविजन निर्माण करने वाली कम्पनियों में नौकरी पा सकता है।
- 2—किसी रेडियो तथा टेलीविजन की दुकान पर रोजगार पा सकता है।
- 3—रेडियो तथा टेलीविजन की मरम्मत की दुकान खोलकर स्वरोजगार कर सकता है।
- 4—रेडियो तथा टेलीविजन के स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोलकर स्वरोजगार कर सकता है।
- 5—डोर टू डोर सेवा के अन्तर्गत खराब रेडियो, ट्रान्जिस्टर एवं टेलीविजन सेट्स को लोगों के घर पर जाकर मरम्मत करके अच्छा धनोपार्जन कर सकता है।
- 6—रेडियो टेलीविजन ट्रेनिंग सेन्टर खोल सकता है।
- 7—दो बैंड के रेडियो बनाना, स्टेबलाइजर तथा टी० वी० का निर्माण।

पाठ्यक्रम—इस ट्रेड में तीन-तीन घंटे के पाँच प्रश्न-पत्र और प्रयोगात्मक परीक्षा भी होगी। अंको का विभाजन निम्नवत् रहेगा—

(क) सैद्धान्तिक-	पूर्णांक	उत्तीर्णांक
प्रथम प्रश्न—पत्र	60	20
द्वितीय प्रश्न—पत्र	60	20
तृतीय प्रश्न—पत्र	60	20
चतुर्थ प्रश्न—पत्र	60	20
पंचम प्रश्न—पत्र	60	20
(ख) प्रयोगात्मक—		
आन्तरिक परीक्षा	200	
वाह्य परीक्षा	200	200
	100 अंक प्रयोगात्मक कार्य	
	100 अंक प्रोजेक्ट कार्य	बाह्य परीक्षा हेतु

टिप—परीक्षार्थियों की लिखित प्रश्न-पत्र में न्यूनतम उत्तीर्णांक 20 तथा योग में 33 प्रतिशत अंक एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में 50 प्रतिशत उत्तीर्णांक पाना आवश्यक है।

प्रथम प्रश्न—पत्र

(तरंग गति एवं ध्वनि का सिद्धान्त)

1—**तरंगों का अध्यारोपण**—दो स्रोतों के कारण स्पेस में व्यक्तिकरण, विवर्तन की संकल्पना, विस्पन्द की घटना, विस्पन्दों की गणना।

20

2—**अप्रगामी तरंगें**—बद्ध माध्यम, अप्रगामी तरंगे, निस्पन्द और प्रस्पन्द, बद्ध माध्यम के कम्पनी की लाक्षणिक प्रवृत्तियां, डोरी एवं आयु स्तम्भों के कस (अनत्य संशोधन जैसी बारीकियां नहीं) सोनो मीटर, मैल्डिस का प्रयोग, अनुनाद स्तम्भ और कुन्द नलिका।

20

3—**डॉप्लर का सिद्धान्त**—आभासी आवृत्ति की गणना करना।

20

- (1) जब प्रेक्षक, स्रोत की ओर गतिमान हो।
- (2) जब प्रेक्षक से दूर जा रहा हो।

द्वितीय प्रश्न—पत्र

(विद्युत तथा विद्युत् चुम्बकत्व का सिद्धान्त)

(क) विद्युत्—

(1) **धारिता**—धारिता की परिभाषा, गोलाकार चालक की धारिता, आवेशित चालक की ऊर्जा, संधारित्र का सिद्धान्त, समान्तर प्लेट संधारित्र की धारिता, गोलाकार संधारित्र की धारिता, श्रेणी क्रम तथा समान्तर क्रम में संधारित्रों का संयोजना, संधारित्र की ऊर्जा।

15

(2) वैद्युत चालन—अम्ल, क्षार तथा लवण के जलीय विलयन में वैद्युत चालन (आयतन वैद्युत अपघटन फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम, फैराडे संख्या) गैसों में वैद्युत चालन, धातुओं में वैद्युत चालन, ओम का नियम, धारा घनत्व, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध चालकता, विशिष्ट चालकता, ताप परिवर्तन का प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध पर प्रभाव, प्रतिरोध का ताप गुणांक।

15

(ख) विद्युत चुम्बकत्व—

(1) विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा—चुम्बकीय फ्लक्स, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल का लारेंज बलों के आधार पर व्याख्या। विद्युत धारा जनित्र (डायनमो) ए०सी०, डी०सी० का सिद्धान्त। स्वप्रेरण, स्वप्रेरकत्व पर क्रोड के पदार्थ का प्रभाव। प्रेरणीय परिपथ में धारा के उत्थान और क्षेत्र का ग्राफीय वर्णन (उपपत्ति नहीं) अन्योन्य प्रेरण को परिभाषाओं, क्रोड पदार्थ पर निर्भरता, ट्रान्सफार्मर (गुणात्मक) सरल धारा मीटर का प्रतिकूल विद्युत वाहक बल।

15

(2) प्रत्यावर्ती धारा परिपथ—वोल्टता तथा धारा का समय के प्रति ग्राफीय चित्रण। वोल्टा एवं धारा तथा धारा में कलान्तर। वर्ग माध्य मूल मान अश्व शक्ति वाल्हीन धारा चोक, कुण्डली। किसी परिपथ में कम्पन एवं आवृत्ति (एक स्प्रिंग पर लगे पिण्ड के कम्पनों से तुलना)।

15

तृतीय प्रश्न—पत्र

(बिसिक इलेक्ट्रानिक्स)

1—विद्युत एवं विद्युत स्रोत—विद्युत धारा के प्रकार—दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत।

10

2—संधारित्र तथा उसके प्रकार—संधारित्र या पारिग्र (कपिस्टर या कण्डेन्सर), मात्रक संधारित्र पर विभिन्न कारकों का प्रभाव, कार्य विभव, संधारित्र के प्रकार—स्थायी, परिवर्ती, अर्द्ध परिवर्ती, बनावट के आधार पर—माइका, ऐपर सिरेनिक, पोलिस्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक, वाय गैना, ट्रिमर या पेडर, संधारित्रों का संयोजन।

10

3—लाउड स्पीकर—संरचना, कार्यविधि, आडियो आवर्ती, अनुक्रिया चक्र।

10

4—मल्टीमीटर—संरचना, कार्यविधि, वोल्टमीटर, अमीटर, ओम मापी की तरह, उपयोग, सुग्राहिता, गुण—दोष।

10

5—अर्द्ध चालक—शुद्ध चालक, अशुद्ध अर्द्ध चालक—पी० तथा एन० प्रकार के अर्द्ध चालक, इलेक्ट्रानिक संरचना। बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेशवाही।

10

6—डायोड—निर्यात डायोड—संरचना व अभिलक्षण वक्र, पी०एन० सन्धि डायोड—संरचना, कार्यविधि तथा अभिलक्षण वक्र। निर्यात डायोड तथा पी०एन० सन्धि डायोड में अन्तर। डायोड के उपयोगदिष्टकारी तथा संसूचक के रूप में। सेतु दिष्टकारी—परिपथ, कार्यविधि, निवेशों तथा निर्गत तरंग रूप।

10

चतुर्थ प्रश्न—पत्र

(ट्रांजिस्टर तथा ट्रांजिस्टर रेडियो)

(1) ट्रांजिस्टर अभिग्राही—अभिग्राही का ब्लाक आरेख व कार्य—विधि, विभिन्न अवस्थाओं का विस्तृत विवरण रेडियो आवृत्ति प्रवर्धक, कनवनेर, आई०एफ० प्रवर्धक, डिटेक्टर तथा श्रवय प्रवर्धक।

20

(2) टेप रेकार्डर—आडियोटेप रिकार्डर के मुख्य भाग तथा उनकी कार्य—प्रणाली।

20

(3) दोष निवारण—ट्रांजिस्टर अभिग्राही की विभिन्न अवस्थाओं के प्रमुख दोष व निवारण, टेप—रिकार्डर में संभावित दोष व उनका निवारण।

20

पंचम प्रश्न—पत्र

(श्वेत—श्याम तथा रंगीन टेलीविजन)

1—श्वेत—श्याम टेलीविजन के निम्न संभागों की कार्य विधि एवं दोष, टी०वी० पावर सप्लाई टी०वी० के कामन सेक्शन, वीडियो सेक्शन, आडियो सेक्शन, सिन्क सेक्शन, ए०जी०सी० (स्वचालित गेन कन्ट्रोल), होरिजन्टल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन तथा ई०एच०टी० (एक्सट्रा हाई टेंशन) सेक्शन।

9

2—श्वेत—श्याम टेलीविजन तथा रंगीन टी०वी० में मुख्य अन्तर प्राथमिक रंग, कलर मिक्सिंग थ्योरी, सेचुरेशन क्रामिनेश स्यूमिनेस, ह्यू।

9

3—सालिड स्टेट—रंगीन टेलीविजन के विभिन्न भाग, उनके कार्य एवं मुख्य दोष। रिमोट कन्ट्रोल की सामान्य जानकारी।

9

4—टेलीविजन बूस्टर की कार्य प्रणाली तथा उसका टेलीविजन में उपयोग तथा आवश्यकता।

9

5—केबिल टेलीविजन की सामान्य जानकारी।	8
6—टेलीविजन मरम्मत के लिए आवश्यक उपकरण।	8
7—टेलीविजन मरम्मत की दुकान के लिए आवश्यक सामग्री।	8

प्रयोगात्मक कार्य का पाठ्यक्रम

1—दो बैंड के ट्रांजिस्टर अभिग्राही को बनाना तथा उनका परीक्षण करना।

(अ) मीडियम बैण्ड तथा शार्ट वेव।

अथवा

(ब) मीडियम बैण्ड तथा एफ० एम०।

2—बैण्ड स्विच की वायरिंग करना।

3—अभिग्राही का एलाइनमेन्ट करना।

4—अभिग्राही में दोष निवारण।

5—श्वेत—श्याम टेलीविजन किट की सहायता से असेम्बल करना तथा उनके दोष निवारण निकालना।

6—पैटर्न जनरेटर की सहायता से टेलीविजन का एलाइनमेन्ट।

7—टेलीविजन में बूस्टर का उपयोग तथा उनका परीक्षण।

8—विभिन्न प्रकार के एण्टीना की जानकारी तथा उपयोग।

9—रंगीन टेलीविजन के विभिन्न भागों में मल्टीमीटर के द्वारा परीक्षण करना तथा दोष निवारण करना।

10—टेलीविजन में रिमोट लगाना।

प्रोजेक्ट कार्य सूची

प्रोजेक्ट कार्य के लिए प्रोजेक्टों की सूची निम्नवत् है—

1—नियंत्रित पावर सप्लाई (o. 30v, 1A)।

2—दो बैण्ड वाला अभिग्राही।

3—किट का प्रयोग करके टेप—रिकार्डर एसेम्बिल करना।

4—किट का प्रयोग करके श्वेत—श्याम टी०वी० बनाना।

5—10 वाट का शक्ति प्रवर्धक।

6—टी०वी० के लिए प्रयोग में आने वाला स्थायीकारक (स्टेबिलाइजर)।

7—टी०वी० प्रदर्शन (डिमांस्ट्रेशन) माडल जिसमें दोष—निवारण किया जा सके।

इस सूची के अतिरिक्त विषय अध्यापक स्वविवेक से विषय से सम्बन्धित उपयुक्त प्रोजेक्ट भी बनवा सकते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को समूह में प्रोजेक्ट आवंटन कर सकते हैं परन्तु प्रोजेक्ट बनाना अनिवार्य है।

प्रायोगिक अंकों का विभाजन निम्न प्रकार से प्रस्तावित है—

आंतरिक परीक्षक	200 अंक			
वाह्य परीक्षक	प्रायोगिक परीक्षा	100 अंक		
	प्रोजेक्ट	100 अंक		
		योग... 200 अंक		

रेडियो एवं रंगीन टेलीविजन तकनीक उपकरणों की सूची

क्रम—संख्या	उपकरण का नाम	संख्या	अनुमानित	
			(a) मूल्य / अ०	मूल्य
1	2	3	4	5
			रु०	रु०
1	सोल्डरिंग आइरन (25w. 35w)	25	35.00	875.00
2	कटर	25	10.00	250.00
3	नोज प्लायर	25	10.00	250.00
4	काम्बीनेशन प्लायर	25	15.00	375.00
5	स्क्रू ड्राइवर सेट (सेट आफ 16)	25	100.00	2500.00
6	चिमटी (टवीजर)	25	3.00	75.00
7	ब्रश (इंस्ट्रूमेन्ट साफ करने के लिए)	10	20.00	200.00

8	फाइल (रेती) (फलेंट, राउण्ड ट्रैगलर)	10 सेट	50.00	500.00
9	बैंच वाइस	5	50.00	250.00
10	हैण्ड ड्रिल	5	40.00	200.00
11	हेक्सा तथा हेक्सा ब्लेड	5	20.00	100.00
12	स्पेनर सेट (रिच सेट)	5	75.00	375.00
13	हैमर (हथौड़ी छोटी)	5	20.00	100.00
1	2	3	4	5
			₹0	₹0
14	टेस्टिंग बोर्ड (टेस्टिंग बोर्ड) (मेन्स बोर्ड) (चार या पाँच प्लग साकेट वाला)	10	40.00	400.00
15	मल्टी मीटर (डिजिटल एनालाग)	10	225.00	2250.00
16	बैटरी एलिमिनेटर	15	125.00	1875.00
17	वोल्टेज रेगुलेटर (टी० वी० स्टेबिलाइजर)	10	150.00	1500.00
18	श्वेत-श्याम 51 से०मी० वी० सेट	2	3500.00	7000.00
19	श्वेत-श्याम 36 से०मी० टी०वी० सेट	5	1500.00	7500.00
20	सिगनल जेनरेटर (आर० एफ०)	2	2500.00	5000.00
21	पैटर्न जेनरेटर	2	1500.00	3000.00
22	ट्रांजिस्टर किट	25	140.00	3500.00
23	टेपरिकार्डर (मोनो)	5	500.00	2500.00
24	टू इन वन (टेपरिकार्डर तथा ट्रांजिस्टर)	5	650.00	3250.00
25	रंगीन टेलीवीजन सेट (दो अलग-अलग प्रकार के)	2	7400.00	14800.00
26	इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट तथा सोल्डर	5000.00
27	कैथोड रे आसिस्कोस्कोप	2	14000.00	28000.00
28	आर० सी० एल० ब्रिज	1	4000.00	4000.00
29	आडियो आसिस्लेटर	2	2000.00	4000.00
			योग ..	96,925.00

पुस्तकें-

- 1—रेडियो एवं टेलीवीजन तकनीक—ले० महेन्द्र सिंह, सबीर सिंह, भारत प्रकाशन मंदिर, 142ए, विजय नगर, वेस्टर्न कचेहरी रोड, मेरठ—मूल्य 125 रु० लगभग।
- 2—टेलीवीजन इंजीनियरिंग—ले० वाई० डी० शर्मा, भारत प्रकाशन एण्ड कम्पनी, वेस्टर्न कचेहरी रोड, मेरठ—मूल्य 100 रु० लगभग।
- 3—रेडियो एवं टेलीवीजन तकनीक।
- 4—टेलीवीजन सर्विसिंग मैनुअल।
- 5—टेलीवीजन सर्विसिंग मैनुअल मेरठ
- 6—कलर टेलीवीजन सर्विसिंग मैनुअल
- 7—रिमोट आपरेटिंग एण्ड सर्विसिंग मैनुअल
- 8—कलर कोड गाइड
- राज पब्लिकेशन, केदार काम्पलक्स, देहली गेट, प्रत्येक का मूल्य लगभग 25 रु०